

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 655]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2018—पौष 7, शक 1940

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2018

क्र. एफ 2-7-2018-छब्बीस-1.—दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (क्रमांक 49 सन् 2016)की धारा 101 के तहत मध्यप्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियम-2017 के नियम 17 के प्रावधानों के अधीन निःशक्त व्यक्तियों (दिव्यांगजन) के लिये पदों के चिन्हांकन हेतु अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 22 अक्टूबर 2018 को मंत्रालय में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा अधिसूचना की अनुसूची-एक में पर्यावरण विभाग की स्थापनाओं की अनुसूची-दो में दी गयी विशिष्टियों के अनुसार निःशक्त व्यक्तियों के आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन किया जाता है:—

अनुसूची "एक"

(1) पर्यावरण विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलका श्रीवास्तव, अपर सचिव.

अनुसूची "दो"

विभाग का नाम—पर्यावरण विभाग (म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल)

श्रेणी	पद/संवर्ग का नाम	सीधी भरती के लिये स्वीकृत पद	योग	निःशक्तजनों के लिये चिन्हांकित पदों की संख्या कुल योग (6 प्रतिशत)	चिन्हांकित पद/संवर्ग एवं संख्या				योग	रिमांक
					दृष्टि बाधित और कम दृष्टि 1.5%	बहरे और कम सुनने वाले 1.5%	लोकोमीटर डिसेबिलिटी 1.5%	ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी एवं बहुविकलांगता 1.5%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
द्वितीय श्रेणी	सहायक यंत्री वैज्ञानिक	68	68	04	01	01	01	01	04	वाहन चालक के कुल 113 पदों में 07 पदों का चिन्हांकन बनता है, उपरोक्त 07 पदों को तृतीय श्रेणी के ही रसायनज्ञ, प्रयोगशाला सहायक, निम्न श्रेणी लिपिक आदि पदों से भरे जाने हेतु चिन्हांकन किया गया है.
	सहायक विधि अधिकारी.	18	18	01	-	-	-	-	01	
	अनुभाग अधिकारी	12	12	01	01	-	-	-	01	
	योग	07	07	-	-	-	-	-	-	
	योग	105	105	06	02	01	02	01	06	
तृतीय श्रेणी	रसायनज्ञ उपयंत्री	107	107	08	02	02	02	02	08	
	शीघ्र लेखक ग्रेड-3.	18	18	01	01	-	-	-	01	
	प्रयोगशाला सहायक.	16	16	02	-	01	01	-	02	
	निम्नश्रेणी लिपिक.	24	24	04	01	01	01	01	04	
	वाहन चालक	68	68	06	01	01	01	03	06	
	विधि सहायक	113	113	-	-	-	-	-	-	
	योग	15	15	01	-	-	01	-	01	
	योग	361	361	22	05	05	06	06	22	
चतुर्थ श्रेणी	प्रयोगशाला परिचारक.	75	75	05	01	01	01	02	05	
	भृत्य/चौकीदार/स्वीपर.	180	180	10	03	03	02	02	10	
	योग	255	255	15	04	04	03	04	15	